

प्रेस विज्ञप्ति

### जामिया की बारहवीं कक्षा (रेग्युलर) बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित

जामिया मिल्लिया इस्लामिया (जेएमआई) ने आज विज्ञान, कला और वाणिज्य स्ट्रीम कक्षा बारहवीं (रेग्युलर)-का परिणाम घोषित कर दिया है। तीनों स्ट्रीम में मूल्यांकन किए गए कुल छात्रों में से 52.35% छात्र हैं और 47.65% छात्राएं हैं। परिणाम <http://jmicoe.in> पर ऑनलाइन उपलब्ध है।

साइंस स्ट्रीम में मोहम्मद कादिर नवाब ने 95 फीसदी अंकों के साथ टॉप किया है। राशिद जमां ने 93.6% अंकों के साथ दूसरा और सिद्रा बुखारी ने 93.4% अंकों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया।

आर्ट्स स्ट्रीम में जुलेखा अख्तर ने 96.8% अंकों के साथ पहला स्थान हासिल किया है। शेख वारिस अहमद आजाद ने 95.2% अंक हासिल कर दूसरा और कुलसुम फातमा ने 94.8% अंकों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया।

कॉमर्स स्ट्रीम में हाना, इफ्त जहां और अरहम खान ने क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। हाना को 94.6%, इफ्त जहां ने 92.8% और अरहम खान ने 91.8% अंक प्राप्त किए।

जामिया की कुलपति प्रो. अख्तर ने सफल छात्रों को बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि वे राष्ट्र निर्माण में सार्थक योगदान देंगे और संस्थान को गौरवान्वित करेंगे।

प्रो. अख्तर ने कहा कि जो लोग चंद अंकों से शीर्ष स्थान हासिल करने से चूक गए हैं, उन्हें निराश नहीं होना चाहिए और जीवन में आने वाली प्रतियोगिताओं और चुनौतियों के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। उन्होंने रजिस्ट्रार, जेएमआई प्रो. नाज़िम हुसैन जाफ़री, डीन और अन्य संकाय सदस्यों के प्रयासों की सराहना की, जिन्होंने परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए अथक प्रयास किया। उन्होंने समय पर परिणाम घोषित करने के लिए परीक्षा नियंत्रक कार्यालय के स्टाफ सदस्यों के प्रयासों की भी सराहना की।

साइंस स्ट्रीम में 99.79% विद्यार्थियों ने परीक्षा पास की, जबकि आर्ट्स स्ट्रीम में कुल पास प्रतिशत 97.46% रहा। कॉमर्स स्ट्रीम में कुल 98.24 फीसदी विद्यार्थियों ने परीक्षा पास की।

साइंस और आर्ट्स स्ट्रीम में छात्राएं परीक्षा पास करने में छात्रों से आगे निकल गयी हैं। साइंस स्ट्रीम में 168 छात्र और 170 छात्रा उम्मीदवारों ने डिस्टिंक्शन के साथ प्रथम श्रेणी हासिल की, जबकि छात्र और छात्राओं सहित कुल 151 विद्यार्थियों ने साधारण प्रथम श्रेणी हासिल की। आर्ट्स स्ट्रीम में 96 छात्र और 128 छात्राओं ने डिस्टिंक्शन के साथ प्रथम श्रेणी हासिल की, जबकि 114 विद्यार्थियों ने साधारण प्रथम श्रेणी हासिल की। कॉमर्स स्ट्रीम में 66 छात्र और 34 छात्राओं ने डिस्टिंक्शन के साथ प्रथम श्रेणी हासिल की, जबकि 68 विद्यार्थियों ने साधारण प्रथम श्रेणी हासिल की।

जनसंपर्क कार्यालय  
जामिया मिल्लिया इस्लामिया